



सुचनाएँ :- 1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

1. निम्नलिखित प्रश्नों में से **किसी भी एक** प्रश्न का निबंधात्मक उत्तर लिखिए। 10

1) साइबर कौतुक एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।

**अथवा**

2) “अफसर” पाठ का सारांश लिखिए।

2. **किसी भी एक** ही समूह के सभी प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। 20

**समूह ‘अ’**

क) संक्षेप में बतलाइए कि नाव में अफसर के साथ रहने से क्या तकलीफ होती है?

ख) “रैत का घर” पाठ के आधार में शाह का चरित्र-चित्रण कीजिए।

ग) सोमा बुआ का दांपत्य जीवन कैसा था?

घ) भारत में रॉकेट विज्ञान के पुनर्जन्म का श्रेय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के किस संस्था को जाता है।

**अथवा**

**समूह ‘ब’**

च) “अकेली” कहानी में छिपे भावों को स्पष्ट कीजिए।

छ) “साँचे में ढला अफसर” और “पैदाइशी अफसर” का संक्षिप्त परिचय दीजिये।

ज) अंतरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

झ) “अग्नि की उड़ान” इस पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए की अब्दुल कलाम की माँ ने कौनसी घटना सूनाई थी।

3. विकल्प के साथ दिये गये किसी भी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 10

1) “सखी वे मुझसे कहकर जाते” कविता का भावार्थ निरूपित कीजिए।

**अथवा**

2) बाल-लीला के पठित पदों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए।

### समूह “क”

- प) “मन आजाद नहीं है” कविता के भावार्थ को अपने शब्दों में समझाइये।  
 फ) सूरदासजी के अनुसार कौनसा सुख देवताओं और ऋषि-मुनियों को भी दुर्लभ है?  
 ब) संक्षेप में यशोधरा की पीड़ा का वर्णन कीजिए॥  
 भ) कवि “पथिक” को क्या संदेश देते हैं।

**अथवा**

### समूह “ख”

- त) कवि “नीरज” ऐसा क्यों कहते हैं? कि तन तो आज स्वतंत्र हमारा, लेकिन मन आजाद नहीं है।
- थ) कृष्ण के गोकुल में प्रकट होने पर यशोदाजी किस प्रकार आनंदित हुई।
- द) कवि रहिम ने अपने दोहों में जो विचार व्यक्त किए हैं, उनका स्पष्टीकरण कीजिए।
- ध) “सखि वे मुझसे कहकर जाते” कविता की भावधारा का अपने शब्दों में परिचय दीजिए।

5. अ) निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए।

10

- 1) उत्तराधिकारी द्वारा मृतक के खाते का प्रचालन बंद करने तथा जमा-राशि का भुगतान करने संबंधी पत्र प्राप्त होने पर बैंक द्वारा दिए गए उत्तर का उदाहरण लिखिए।

**अथवा**

- 2) आप अपने पुस्तकों की एक दुकान के प्रबंधक हैं। आवश्यकों के लिए एक क्रयादेश लिखिए।

- आ) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए।

10

- 1) देवनागरी लिपि का मानक वर्णनमाला का स्वीकृत रूप लिखिए।
- 2) हिंदी से अँग्रेजी प्रशासनिक शब्दों को लिखिए।  
अ) अंशकालीन                                      ब) वित्त  
क) निर्यात    ड) अधिसूचना
- 3) सामान्य कार्य कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं?
- 4) मिनी कंप्यूटर की उपयोगिता का वर्णन कीजिए।
- 5) अँग्रेजी से हिंदी प्रशासनिक शब्दों को लिखिए।  
अ) Seminar    ब) Report  
क) Message                                        ड) Zonal

\*\*\*\*\*